

Date: November 16, 2021

To, Manager (Listing) BSE Limited Floor 25, P J Tower, Dalal Street, Mumbai -400001

Re: Company's Code No. 505725

<u>Subject: Newspaper Clipping of Publication of Unaudited Financial Results under intimation Regulation 47 of SEBI (Listing and Obligation Disclosure) Regulation, 2015</u>

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of Newspapers Advertisement in "FINANCIAL EXPRESS" (English Edition) and "JANSATTA" (Hindi Edition) published on November 16, 2021, with respect to the Unaudited Financial Results of Company for the Quarter and Half year ended 30th September, 2021.

You are requested to kindly take the same in your records.

Thanking you,

Yours faithfully

For Algoquant Fintech Limited (Formerly Hindustan Everest Tools Ltd.)

For Algoquant Fintech Limited

Mr. Devansh Gupta

Managing Director DIN:06920376





STATE BANK OF INDIA SME Centre Central (04499), B-Block, Ground Floor, 11, Parliament Street, New Delhi-110001

{Rule 8(1) of SARFAESI Act 2002, for Immovable Property} Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of State Bank of India under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (2) read with (Rule 9) of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued a demand notice dated 25.01.2021 calling upon the Borrowers: M/s Sumankit Enterprises to repay the amount mentioned in the notice, being Rs. 10,99,529.41 (Rupees Ten lacs ninety nine thousand five hundred twenty nine and paisa forty one only) + Future Interest together with incidental expenses. costs, other charges etc. within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower having failed to repay the amount notice is hereby given to the Borrower(s)/Guarantor(s) and the Public in General that the undersigned has taken possession of the property Jurist Dot M K Legal Associates LLP, 199, Ground Floor, Sec-24, Pocket-11, Rohini, Delhi-85 described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this 10th day

POSSESSION NOTICE

The Borrower(s)/Guarantor(s) in particular and the Public in General is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of State Bank of India for an amount of Rs. 10.99.529.41 (Rupees Ten lacs ninety nine thousand five hundred twenty nine and paisa forty one only) + Future Interest together with incidental expenses, costs, other charges etc.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

No.421, Ground Floor, Gali No.04, Rameshwari Nehru Nagar, Karol Bagh, New Dlehi, Measuring 1.84 Sq.mtr. in the name of Suman Rastogi

Date: 16.11.2021 Place: New Delhi

of November of the year 2021.

Authorized Officer, State Bank of India



THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD.

C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110058 Phone: 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044 E-mail: leagal@kangrabank.com, legal1@kangrabank.com Website: www.kangrabank.com

> APPENDIX IV [See rule 8(1)] POSSESSION NOTICE

(For immovable property)

The undersigned being the Authorised officer of "The Kangra Co-operative Bank Ltd." Head office at, C-29. Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi - 110058 having its registered office at 1916, Chuna Mandi, Pahar Ganj, New Delhi-110055, under The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule [3] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Bank had issued a demand notice on dated16-08-2021, calling uponthe borrower& Mortgagor Sh. Wangel Lama S/o. Late Sh.Sangel Lama R/o. H.No. 50, Khasra No.14/1/12, A-1 Block, Gurudwara Wali Gali, Burari, Delhi-110084 also at Sh. Wangel Lama S/o. Late Sh. Sangel Lama, Delhi Police, Security Unite, E-Block, New Delhi-110001. to repay the amount mentioned in the notice being ₹10,16,348/- (Rupees Ten Lakhs Sixteen Thousand Three Hundred and Fourty Eight Only), together with further interest, penal interest and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date of the notice till the date of payment, with in 60 days from the date of

The above mentioned borrower & mortgagor having failed to repay the amount, notice it hereby given to the borrower & mortgagor and the public in general that the Bank has taken possession of the property described here in below in exercise of powers conferred under sub-section (4) of section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, read with rule [8] The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, on this 12th day of November 2021. The borrower & mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the mortgaged property and any dealings with the property will be subject to

the charge of "The Kangra Co-operative Bank Ltd.", for an amount of ₹10,16,348/together with further interest, penal interest and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date of notice till the date of realization together with all the costs incurred by the Bank in realizing the said amount. The borrower & mortgagorattention is also been invited towards provisions of

Sub-Section (8) of Section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, in respect of time available, to redeem the below mentioned mortgaged property/Secured Asset. DESCRIPTION OF THE PROPERTY

shop on ground floor without roof rights area measuring 13.22 Sq. Yds.

The property under All the part and parcel of the BUILT-UP SHOP consideration is Built up | BEARING NO.11, MEASURING 13.22 SQ. YDS., ON GROUND FLOOR (WITHOUT ITS TERRACE/ROOF RIGHTS) OUT OF KHASRA NO. 769/1MIN, SITUATED IN THE EXTENDED LAL DORA/ABADI OF VILLAGE BURARI, DELHI-110084. Falling Under the Registration of Sub-Registrar I, Delhi.

(HARISH SHARMA) **AUTHORISED OFFICER** THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. HEAD OFFICE AT, C-29, COMMUNITY CENTRE PANKHA ROAD, JANAKPURI, NEW DELHI-58. Phone.9013568419,9810487548.

THE MEWAR INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SYNDICATE LIMITED (Incorporated: 1945)

Regd. office: - 233, Loddha Complex, Court Choraha, Udaipur Rajasthan 313001 CIN-: U14219RJ1945PLC000293, Email: mewarindustrial@gmail.com

Shorter Notice of 76th Annual General Meeting Shorter Notice is hereby given to the members of M/s. The Mewar Industrial and Commercia Syndicate Limited that the 76th Annual General Meeting of the company will be held or Tuesday 30th November 2021 at 10:30 A.M. at Maheshwari Bhawan, Shrinath Marg, Amal Ka kanta, Udaipur (Raj.) 313001 to transact the business mentioned in the notice, Which has

already been dispatched to the members. Notice is further given, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of Members and Share transfer books of the company will remain closed from 23rd

By Order of the Board of Directors Anurag Jhabak Suniil Lunawat Date: 14 Nov 2021 (Managing Director) (Chairman)



THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110058

E-mail: leagal@kangrabank.com, legal1@kangrabank.com Website: www.kangrabank.com

APPENDIX IV [See rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (For immovable property)

The undersigned being the Authorised officer of "The Kangra Co-operative Bank Ltd." Head office at. C-29. Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi - 110058. having its registered office at 1916, Chuna Mandi, Pahar Ganj, New Delhi-110055, under The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule [3] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Bank had issued a demand notice on dated16-09-2019, calling uponthe borrower Sh. Harish Sharma S/o. Sh. Ganesh Sharma R/o. 23/19, Surender Colony, Galo No.4, Hardev Nagar, Jharoda Majra, Burari, Delhi-110084 also at Sh. Harish Sharma S/o. Sh.Ganesh Sharma 32/7, Dheerpur, Near Nirankari Colony, Delhi-110009, and calling upon the Mortgagor & Surety Smt. Pramila Sharma W/o. Sh. Ganesh Sharma, R/o. 23/19, Surender Colony, Galo No.4, Hardev Nagar, Jharoda Majra, Burari, Delhi-110084, to repay the amount mentioned in the notice being ₹15,18,362/- (Rupees Fifteen Lakhs Eighteen Thousand Three Hundred and Sixty Two Only), together with further interest, penal interest, and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date of the notice till the date of payment, with in 60 days from

The above mentioned borrower, mortgagor& surety having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower, mortgagor& surety and the public in general that the Bank has taken possession of the property described here in below in exercise of powers conferred under sub-section (4) of section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002. read with rule [8] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, on this 12th day of

The borrower, mortgagor & surety in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the mortgaged property and any dealings with the property will be subject to the charge of "The Kangra Co-operative Bank Ltd.", for an amount of ₹15,18,362/- together with further interest, penal interest and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date of notice till the date of realization together with all the costs incurred by the Bank in realizing the said amount. The borrower, mortgagor & surety attention is also been invited towards provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, in respect of time available, to redeem the below mentioned mortgaged property/Secured Asset.

DESCRIPTION OF THE PROPERTY

The property under All the part and parcel of the ENTIRE FIRST FLOOR WITHOUT ROOF RIGHTS AND THIRD FLOOR WITH consideration is Built up Entire first without roof ROOF RIGHTS OF BUILT-UP PROPERTYLAND rights & Third floor MEASURING 44 SQ. MTRS., (52 1/2 SQ. YDS. APPROX.) OUT OF KHASRA NO. 23/19. SITUATED IN THE AREA OF with roof rights, area measuring 52.50 Sq. VILLAGE JHARODA MAJARA BURARI, ABADI KNOWN Yds. Approx. AS GALI NO.4, A-BLOCK, SURENDER COLONY PART-I JHARODA MAJARA BURARI, DELHI-110084, Falling

Under the Registration of Sub-Registrar I, Delhi.

WHICH IS BOUNDED AS UNDER:-: OTHERS PROPERTY. WEST ROAD 20 FT. NORTH: OTHERS PROPERTY.

DATED: 12.11.2021

SOUTH : OTHERS PROPERTY. (MEENAKSHI VATS) DELHI.

AUTHORISED OFFICER THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. HEAD OFFICE AT, C-29, COMMUNITY CENTRE, PANKHA ROAD, JANAKPURI, NEW DELHI-58. Phone. 9013568418

(Rs. in Lacs)

Year ended

DELHI. DATED: 12.11.2021

MEFCOM CAPITAL MARKETS LIMITED

Regd. Office: - 5th Floor, Sanchi Building, 77, Nehru Place, New Delhi - 110 019 CIN: L74899DL1985PLC019749

Extract of Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter & HalfYear ended 30.09.2021 STANDALONE **PARTICULARS** Half Year Ended Quarter ended

1		30.09.2021	30.06.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	31.03.2021
		UnAudited	UnAudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income	3,063.68	1,675.24	725.87	4,739.26	828.92	2,386.49
2	Net Profit /(Loss) for the period after tax	140.98	198.02	9.06	339.00	47.92	246.53
3	Total Comprehensive Income for the Period	123.32	347.54	(12.10)	470.86	44.85	320.26
4	Equity Share Capital (Paid-up) (FV of Rs. 10/- each)	914.02	914.02	914.02	914.02	914.02	914.02
5	Reserves excluding revaluation reserves (as shown in balance sheet of previous year)	-	-		-	-	590.27
6	Earning Per Share - Basic/ Diluted (Rs.per equity share)	1.54	2.17	0.10	3.71	0.52	2.70
		CONSOLIDATED					
1	Total Income	3,512.38	2,140.23	873.04	5,652.61	1,044.30	3,052.65
3	Net Profit /(Loss) for the period after tax	173.80	212.81	22.88	386.61	52.16	200.32
4	Total Comprehensive Income for the Period	156.14	362.33	1.71	518.47	49.10	274.05

Note:

The above is an extract of the detailed Financial Results for the guarter ended September 30, 2021 filled with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full standalone and consolidated Financial results in prescribed format are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and Company's Website www.mefcom.in.

The Company has adopted Indian Accounting standards ('Ind AS') from 1st April, 2017 (transition date April 01, 2016) and accordingly, these Financial results have been prepared in accordance Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013, read with relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.

(11.51)

For Mefcom Capital Markets Ltd Vijay Mehta **Managing Director** DIN: 00057151

Place: Varanasi

Date: 13.11.2021

63

THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD.
C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110058
Phone: 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044

E-mail: leagal@kangrabank.com, legal1@kangrabank.com Website: www.kangrabank.com

APPENDIX IV [See rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (For immovable property)

The undersigned being the Authorised officer of "The Kangra Co-operative Bank Ltd."

Head office at, C-29, Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi - 110058, having its registered office at 1916. Chuna Mandi, Pahar Gani, New Delhi-110055, under The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule [3] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Bank had issued a demand notice on dated 05-03-2021, calling upon the borrower Sh. Ajeet Singh Sisodia S/o Sh. Nanu Ram Sisodia R/o. H.No.113, Gali No.5, Jharoda Majra Burari, Delhi-110084, Also at Sh. Ajeet Singh Sisodia S/o Sh.Nanu Ram Sisodia C/o. M/s. A.B. Electronics and Property Dealer Main 25 Foota Road, Jharoda, Delhi-110084, and calling upon the mortgagor & Surety, Smt. Kulwant Kaur W/o. Sh. Ajeet Singh Sisodia R/o. H.No.113, Gali No.5, Jharoda Majra Burari, Delhi-110084, to repay the amount mentioned in the notice being ₹18,59,004/- (Rupees Eighteen Lakhs Fifty Nine Thousand and Four Only), together with further interest, penal interest and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date of the notice till the date of payment, with in 60 days from the date of receipt of the notice. The above mentioned borrower, mortgagor& surety having failed to repay the amount. notice is hereby given to the borrower, mortgagor& surety and the public in general that the Bank has taken possession of the property described here in below in exercise of powers conferred under sub-section (4) of section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, read with rule [8] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, on this 12" day of November 2021.

The borrower, mortgagor & surety in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the mortgaged property and any dealings with the property will be subject to the charge of "The Kangra Co-operative Bank Ltd.", for an amount of ₹18,59,004/- together with further interest, penal interest and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date of notice till the date of realization together with all the costs incurred by the Bank in realizing the said amount. The borrower, mortgagor & surety attention is also been invited towards provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, in respect of time available, to redeem the below mentioned mortgaged property/Secured Asset.

DESCRIPTION OF THE PROPERTY

consideration is Built up ground floor without roof rights area measuring 36Sq.mtrs. & first floor without roof rights area measuring 43 sq. Mtrs.

The property under All the part and parcel of the BUILT UP GROUND FLOOR PORTION AREA MEASURING 36 SQ. MTRS. AND BUILT-UP FIRST FLOOR PORTION AREA MEASURING 43 SQ. MTRS., WITHOUT ROOF RIGHTS, PART OF PROPERTY BEARING PVT. NO.113, OUT OF KHASRA NO. 66, SITUATED IN THE ABADI OF LAL DORA VILLAGE JHARODA MAJRA BURARI, GALI NO.5, DELHI. Falling Under the Registration of Sub-Registrar I, Delhi.

(HARISH SHARMA)

AUTHORISED OFFICER

THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD.

HEAD OFFICE AT, C-29, COMMUNITY CENTRE,

PANKHA ROAD, JANAKPURI, NEW DELHI-58.

EAST Other Property. Other Property. WEST NORTH Main Road. SOUTH : Other Property.

Which is bounded:-

DELHI.

Phone.9013568419.9810487548. DATED: 12.11.2021 HINDUSTAN EVEREST TOOLS LTD.

Regd. & H.O.: 4/11, 1st Floor, Asaf Ali Road, New Delhi-110002 (India) CIN: L74110DL1962PLC003634, Ph:+91-9910032394 E-mail: admin@everesttools.com, Website: http://www.everesttools.com

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER 2021 (Rs. In Lakh Except per Share Data)

ar ended -03-2021
Audited)
554.16
296.69
441.79
374.44
-1.46
372.98
160.72
1850.72
23.30
23.30
(0.09)
(0.09)
00.04
23.21

- The above Statement of "Unaudited Standalone Financial Results" for the guarter and half year ended September 30, 2021 ("the Statement") has been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on November 14, 2021. The Statutory Auditors have issued an un-modified opinion on the Statement.
- The financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules framed thereunder and other accounting principles generally accepted in India.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly and half yearly Financial Results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the quarterly and half yearly Standalone Financial Results are available on the Exchange website www.bseindia.com and the Company's website www. everesttools.com. FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

HINDUSTAN EVEREST TOOLS LTD.

Devansh Gupta Managing Director DIN: 06920376

THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD.
C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110058

Phone: 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044 E-mail: leagal@kangrabank.com, legal1@kangrabank.com Website: www.kangrabank.com

APPENDIX IV

[See rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (For immovable property)

The undersigned being the Authorised officer of "The Kangra Co-operative Bank Ltd." Head office at, C-29 Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi - 110058 having its registered office at 1916, Chuna Mandi, Pahar Gani, New Delhi-110055, under The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule [3] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Bank had issued a demand notice on dated14-01-2021, calling uponthe borrower & Mortgagor Sh. Lokesh Goel S/o. Sh. Girdhar Swaroop R/o. H.No.5240, Gali No.115/2, Sant Nagar Burari, Delhi-110084 also at Sh. Lokesh Goel S/o. Sh.Girdhar Swaroop, C/o. M/s. D.K.Builder, Opp. Gali No.112, 25ft. Road, Sant Nagar Burari, Delhi-110084, to repay the amount mentioned in the notice being ₹37,98,333/- (Rupees Thirty Seven Lakhs Ninety Eight Thousand Three Hundred and Thirty Three Only), together with further interest, penal interest, and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date of the notice till the date of payment, with in 60 days from the date of receipt of the notice. The above mentioned borrower&mortgagorhaving failed to repay the amount, notice is

taken possession of the property described here in below in exercise of powers conferred under sub-section (4) of section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, read with rule [8] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, on this 12" day of November 2021. The borrower & mortgagorin particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the mortgaged property and any dealings with the property will be subject to the charge of "The Kangra Co-operative Bank Ltd.", for an amount of ₹37,98,333/together with further interest, penal interest and other charges as are applicable to this

hereby given to the borrower&mortgagorand the public in general that the Bank has

with all the costs incurred by the Bank in realizing the said amount. The borrower & mortgagorattention is also been invited towards provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, in respect of time available, to redeem the below mentioned mortgaged property/Secured Asset.

Loan account from time to time, from the date of notice till the date of realization together

DESCRIPTION OF THE PROPERTY The property under All the part and parcel of the ENTIRE BUILT UP GROUND

consideration is Built FLOOR, WITHOUT ITS ROOF RIGHTS, PART OF ABOVE

up Entire Ground floor SAID PROERTY BEARING NO. 5240, AREA MEASURING

without roof rights, 120 SQ YDS, PART OF KHASRA NO.680, SITUATED IN THE area measuring AREA OF VILLAGE BURARI, DELHI-110084, ABADI KNOWN AS EXTENDED LAL DORA, SANT NAGAR 120 Sq. Yds. BURARI, DELHI-110084. Falling Under the Registration of Sub-Registrar I, Delhi.

WHICH IS BOUNDED AS UNDER:-: OTHER PROPERTY. WEST : Gali. NORTH : Road 25 ft. SOUTH : OTHER PROPERTY.

> (MEENAKSHI VATS) AUTHORISED OFFICER THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. HEAD OFFICE AT. C-29, COMMUNITY CENTRE PANKHA ROAD, JANAKPURI, NEW DELHI-58. Phone. 9013568418

THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110058 Phone: 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044

E-mail: leagal@kangrabank.com, legal1@kangrabank.com Website: www.kangrabank.com

APPENDIX IV [See rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (For immovable property)

Whereas, The undersigned being the Authorised officer of "The Kangra Co-operative Bank Ltd."

DELHI.

DATED: 12.11.2021

Head office at, C-29, Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi - 110058, having its registered office at 1916, Chuna Mandi, Pahar Ganj, New Delhi-110055, under The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule [3] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Bank had issued a demand notice on dated 04-03-2021, calling uponthe borrower Sh. Pankaj Kumar Sharma S/o. Sh. Prem Kumar Sharma R/o. B-1/4, A, Gali No.3, Upkar Colony, Sant Nagar Burari, Delhi-110084 also at Sh. Pankaj Kumar Sharma S/o. Sh. Prem Kumar Sharma B-3/4, A, Gali No.3, Upkar Colony, Sant Nagar Burari, Delhi-110084, and Sh.Pankaj Kumar Sharma S/o. Sh. Prem Kumar Sharma, Khasra No. 350/1, 1" Floor, Village Burari, Delhi-110084, and Sh. Pankaj Kumar Sharma S/o. Sh. Prem Kumar Sharma C/o. M/s. Great India Nautanki Co.Pvt.Ltd. Kingdom of Dreams, Auditorium Complex, Sector-29, Gurugram, Haryana-122001, calling upon the Mortgagor Smt. Uma SharmaW/o. Sh. Prem Kumar Sharma R/o. B-3/4, A Gali No.3, Upkar Colony, Sant Nagar Burari, Delhi-110084, to repay the amount mentioned in the notice being ₹15,85,483/- (Rupees Fifteen Lakhs Eighty Five Thousand Four Hundred and Eighty Three only), together with further interest, penal interest and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date of the notice till the date of payment, with in 60 days from the date of receipt of

The above mentioned borrower, mortgagor & surety having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower, mortgagor& surety and the public in general that the Bank has taken possession of the property described here in below in exercise of powers conferred under sub-section (4) of section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, read with rule [8] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, on this 12th day of The borrower, mortgagor & surety in particular and the public in general is hereby

cautioned not to deal with the mortgaged property and any dealings with the property will be subject to the charge of "The Kangra Co-operative Bank Ltd.", for an amount of ₹15,85,483/- together with further interest, penal interest and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date of notice till the date of realization together with all the costs incurred by the Bank in realizing the said amount. The borrower, mortgagor & surety attention is also been invited towards provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, in respect of time available, to redeem the below mentioned mortgaged property/Secured Asset

DESCRIPTION OF THE PROPERTY The property under All the part and parcel of the BUILT-UP FIRST FLOOR

consideration is Built up Entire First Floor & Second Floor Measuring 50 Sq. Yds.

AND SECOND FLOOR MEASURING 50 SQ. YDS., OF SAID PROPERTY COMPRISED IN KHASRA NO. 350/1, SITUATED IN THE AREA OF VILLAGE BURARI, ABADI KNOWN AS EXTENDED LAL DORA. DELHI-110084. Falling Under the Registration of Sub-Registrar I, Delhi.

: Others Property. EAST WEST : Road 14 ft. NORTH : Others Property. SOUTH: Others Property.

DELHI.

DATED: 12.11.2021

Name of the Borrower(s) / Guarantor(s) Demand Notice Date and Amount

BOUNDED AS UNDER:

(HARISH SHARMA) AUTHORISED OFFICER THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. HEAD OFFICE AT, C-29, COMMUNITY CENTRE PANKHA ROAD, JANAKPURI, NEW DELHI-58.

Description of secured asset (immovable property)

Daultabad on Sec-16A Faridabad, Haryana, India.

CIN: L55101DL1961PLC017307

Read. Office: 1101. Surva Kiran. 19. Kasturba Gandhi Marg. New Delhi-110 001 **Tel:** 011-23722596-98, **Fax:** 011-23312990 **Email:** clarkssuryakiran@yahoo.co.in, **Website:** www.hotelclarks.com

The figures of the previous period(s)/ year have been regrouped/ restated wherever considered necessary.

EXTRACTS OF STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2021

(Rs. in Lakh except earning per sha									
SI.			uarter ende	d	Half Year	ended	Year ended		
No.	Particulars	30.09.2021	30.06.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	31.03.2021		
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited		
.1_	Total Income from Operations	1362.42	628.14	274.44	1990.56	415.55	3286.33		
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	(101.53)	(346.86)	(830.70)	(448.39)	(1,278.02)	(1,059.00)		
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(101.53)	(346.86)	(830.70)	(448.39)	(695.98)	(1,059.00)		
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(75.98)	(259.56)	(621.63)	(335.54)	(956.37)	(767.68)		
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(67.98)	(243.36)	(601.71)	(311.34)	(890.96)	(717.28)		
6	Equity Share Capital	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	_	_	_	8131.56	8269.21	8442.90		
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each)								
	1. Basic:	(1.41)	(4.81)	(11.51)	(6.22)	(17.71)	(14.22)		

held on 14th November, 2021. The same have also been subjected to Limited Review by the Statutory Auditors. 2 The above is an extract of the detailed format of Standalone financial results for the Quarter and Half Year ended 30th September.

2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Half Yearly Results are available on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and on the website of the Company at www.hotelclarks.com.

FOR U. P. HOTELS LIMITED APURV KUMAR RUPAK GUPTA

(Joint Managing Directors)

SHRI BHOLANATH CARPETS LIMITED CIN: L17226UP1973PLC0003746 Reg Off.: G.T. Road, Kachhawan, Varanasi-221313, U.P.

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED **SEPTEMBER 30, 2021** BSE Code: 530841

Place: New Delhi

Date: 16th November, 2021

Particulars		Quarter ended	18	Year ended
	30.09.2021	30.06.2021	30.09.2020	31.03.2021
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total income from operations Net Profit / (Loss) (before tax and/or	433.06	343.92	419.96	1806.40
extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before	1.26	0.36	(2.49)	(15.66)
tax (after Extraordinary items) Net Profit/ (Loss) after tax	1.26	0.36	(2.49)	7.80
(after extraordinary items) Total Comprehensive income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other	1.26	0.36	(2.49)	5.18
comprehensive income (after tax)] Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of	1.26 480.00	0.36 480.00	(2.49) 480.00	5.18 480.00
previous year) Earnings Per Share (of 10/- each) (for continuing and discontinued operations)				803.37
Basic:	0.03	0.01	(0.05)	0.11
Diluted:	0.03	0.01	(0.05)	0.11

Note: (a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly unaudited financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended 30th September 2021 Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and also on the Company's website (www.bholanath.biz) FOR SHRI BHOLANATH CARPETS LIMITED

Vivek Baranwal Director & CFO DIN: 02076746 932823)

Mr. Pawan Kumar, Mrs.

Draupadi (Prospect No.

DEMAND NOTICE

Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act.) read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the said Rules). In exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorised Officer of IIFL Home Finance Ltd. (IIFL HFL) (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them. In connection with above notice is hereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further interest from the date(s) of Demand Notice till the date of payment. The detail of the Borrower(s) amount due as on date of Demand Notices and security offered towards repayment of loan amount are as under:

Mr. Tipu Sultan, Mrs. Sabiha Parvee (Prospect No 718123)		All that piece and parcel of the property being: Built Up Second Floor Front Side Portion Without Roof/terace Rights, With one Car Parking Space, on Property Bearing No. 103, Area Measuring 70 Sq. Yds, out of Total Lanad Measuring 140 Sq. Yds., out of Khasra No. 104/8/1, Situated in the Revenue Estate of Village Palam, Delhi Abadi Known as Raja Puri, New Delhi-110059.
Mr. Anupam Mandelia, New Hind Lubes And Greases Pvt Ltd, Mr. Arun Mandelia (Prospect No.733537)	Rs.24,74,650/- (Rupees Twenty Four	All that piece and parcel of the property being: Apartment bearing No. A127/4, admeasuring tentative super area of approx. 900.00 Sq. Ft. (83.61 Sq. Mtrs.) and having tentative Covered area 693.00 Sq. Ft., 4th Floor Type 2 BHKunder Wave Executive Floor, Sector-Greenwood Enclave, Wave City, Nh-24, Ghaziabad, 201010, Uttar Pradesh, India
Mr. Bhuvneshwar Sing, Mrs. Mamta Singh (Prospect No 733829)		All that piece and parcel of the property being: F 145 C, Buid Up Area admeasuring 1038.83 Sq. Ft., Tower E, Nh-24, Gzd, 2nd Floor, Wave Royal Castle Floors, Ghaziabad, 201002, National Capital Region, India
	11-November-2021 Prospect No.878362 Rs.16,68,149/-	All that piece and parcel of the property being: House No.181 area admeasuring 84 sq.yrds Situated at Village

6,68,149/-No.181 area admeasuring 84 sq.yrds Situated at Village 878362, 952590, 880437 (Rupees Sixteen Lakh Sixty Eight Thousand One Hundred Forty Nine Only), Prospect No. 952590 Rs.1,57,730/- (Rupees One Lakh Fifty Seven Thousand Seven Hundred Thirty Only), Prospect No. 880437, Rs.91,804/- (Rupees Ninety One Thousand Eight Hundred Four Only) Prospect No. 932823 Rs.3,15,324/-

(Rupees Three Lakh Fifteen Thousand Three Hundred Twenty Four Only) 11-November-2021 All that piece and parcel of the property being: Part Of Rs.7,83,138/- (Rupees Seven Lakh Plot No. 16, admeasuring 600 Sq. Ft., on Khasra, No. Eighty Three Thousand One 18 A And B, Situated at Geetakunj Mauja Taura, Agra, Hundred Thirty Eight Only) 282001, Uttar Pradesh, India.

If the said Borrowers fail to make payment to IIFL HFL as aforesaid, IIFL HFL may proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the said Act. and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and consequences of the Borrowers. For, further details please contact to Authorised Officer at Branch Office: Plot No. 30/30E, Upper Ground Floor, Main Shivaji Marg, Najafgarh Road, Beside Jaguar Showroom, Moti Nagar, New Delhi Corporate Office: IIFL Tower, Plot No. 98,

Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana. Date: 16-November-2021 Place: Delhi / NCR Sd/- Authorised Officer For IIFL Home Finance Limited

Place: New Delhi Date: 13-Nov-21 U. P. HOTELS LTD.

2. Diluted NOTES:-1 The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting

Place : New Delhi Date: 14.11.2021

November, 2021 to 29th November, 2021 (both days inclusive).

Phone: 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044

शुद्धिपत्र

जनसत्ता 14 नवंबर, 2021 को प्रकाशित शान्तन् इन्वेस्टमेंट्स (इंडिया) लिमिटेड के 30 सितम्बर, के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की सूचना के शीर्षक में कम्पनी का

L65993DL1973PLC006795 के वदले

शेष सूचना यथावत रहेगी।

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

कार्यालय ग्राम पंचायत जौला, विकास खण्ड बढाना, जिला मुजफ्फरनगर

पत्रांक: मीमो/पंचायत/निविदा निविदा सुचना

शासन के आदेशों के अनुपालन में ग्राम पंचायत जीला विकास खंड बुढ़ाना जनपद मुजफ्करनगर मे शञ्च वित्त आयोग/केन्द्रीय वित्त आयोग, मनरेगा एवं अन्त्येष्टि स्थल विकास के अन्तर्गत कराये जाने वाले निम्न कार्यो हेतु कार्य स्थल पर निर्माण सामग्री की आपूर्ति किए जाने हेतु जीएसटी पंजीकत

 पाम गढी सखावतपुर जीला में अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण, 2- प्राम पंचायत सविवालय में टाइलिकरण (वाल एवं फ्लोर टाइल्स), 3- प्राइमरी रक्ल नं. । जीला में टाइलिकरण (वाल एवं फ्लोर टाइल्स), 4- प्राइमरी स्कूल नं. 2 जांला में टाइलिकरण (वाल एवं फ्लोर टाइल्स), 5- प्राइमरी स्कूल नं. 3 जीला में टाइलिकरण (वाल एवं फ्लोर टाइल्स), 6- प्राइमरी रकुल नं. 1 गढी सखावतपुर में टाइलिकरण (वाल एवं क्लोर टाइल्स), 7- प्राइमरी स्कूल नं. 2 गढी संख्यावतपुर में टाइलिकरण (वाल एवं पलोर टाइल्स), 8- जूनियर हाई स्कूल गढ़ी सखावतपुर में टाइलिकरण (वाल एवं पलोर टाइल्स), 9— प्राइमरी स्कूल नं.। जाला में चारदीवारी व गेट निर्माण, 10— पशु चिकित्सालय की मरम्मत कार्य, 11— विद्यालयों में फर्नींचर व्यवस्था , 12-- प्राम पंचायत कार्यालय हेतु फर्नींचर व कम्प्यूटर प्रिन्टर आदि विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाले सामग्री जैसे इंटरलाकिंग टाइल्स, ईंट, बालू, सीमेन्ट, उस्ट/कोरसँड, रटोन ग्रिट, लोहा, चनल, सरिया, किराए पर जेसीबी मशीन व डफर ट्रॅक्टर, वाल पुटटी, समोराम, पेंट, रकुल फर्नीचर, आफिस फर्नीचर व कम्प्युटर अन्य पेरीफीरल्स सहित क्रय करने हेतु उपरोक्तानुसार निविदाएं विनांक 20–11–2021 साथं 3 बर्जे तक आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन साथे 4 बजे संबन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय पर खोली जायेगी। निविदा प्रपन्न व शर्तो की जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किये जा सकते है। संबन्धित कार्य हेतु सामाग्री

ग्राम पंचायत जीला

ग्राम पंचायत जीला

पंजाब नैश्रनल बैंक 😉 punjab national bank

शस्त्र केन्द्र मण्डल कार्यालय देहरादून (पश्चिम) : प्रथम तल, विधानसभा मार्ग, विधानसभा के सामने, देहरादून

(रु. लाखों में)

(सरफेसी अधिनियम प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के धारा 13 (2) के तहत, सुरक्षा हित शासन 2002 नियम 3 के साथ) आप सभी को इस वैकल्पिक सेवा के अलावा पूर्व में जारी सूचनाओं के सुपर्द हुए बिना वापस आने के बाद, मैं जमानती लेनदार बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में यह सूचना जारी करता हूं। अतः आप सभी निम्न वर्णित ऋर्णियों /गारंटरों को एतद्दवारा सूचित किया जाता है और सरफेसी अधिनियम प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के धारा 13(2) के नियम 3 के अतर्नात सार्वजनिक मांग सुचना जारी की जाती है। ताकि आप सभी अपने पक्ष में निम्न वर्णित बकाया का भूगतान इस प्रकाशन के उपरांत 60 दिनों के अंदर करें। कृपया यह नोट करें कि यदि आप मांगी गई सम्पूर्ण राशि का 60 दिनों के अंदर भुगतान नहीं करते है तो बैंक उक्त अधिनियम के धारा 13(4) के तहत ऋण खाते में बंधक सम्पत्ति∕सम्पत्तियों पर कब्जा करने की प्रक्रिया आरंभ करेगा और उसके बाद उक्त अधिनियम के तहत बकाया सहित बकाया देनदारी की वसुली के लिए उसे बेचेगा। बकाया देनदारी की वसुली के लिए बैंक के पास उपलब्ध सुविधाओं से पक्षपात किए बिना आप सभी के विरूद्ध निम्न सूचनाएं जारी की जाती है। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकष्ट किया जाता हैं

東刊	ऋणी/पार्टनर/बंधककर्ता/गारन्टर के नाम	प्रतिभूति / सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना तिथि	बकाया राशि
1.	248198, पता 2: एनफील्ड लेन, विकासनगर शिव मंदिर	या 359.10 वर्ग मीटर, गांव एटन बाग तहसील विकासनगर, परगना पछवादून जिला देहरादून में स्थित है। सम्पत्ति की स्वामिनी श्रीमती मनीषा	को जारी सरफेसी 13(2) का नोटिस जिसमें रू0 83,46,045.00 + व्याज + अन्य प्रभार मुगतान करने को कहा गया था जो पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया था वह अप्राप्त वापस आ गया	08.11.2021 को रु0 83,46,045.00 + प्रभावी व्याज एवं अन्य खर्चें कानूनी विस्तार 01.11.2021 से प्रभावी
	पता 3: हास्पिटल रोड, विकासनगर, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून, गारंटर /बंधक : 1. श्री आलोक बंसल पुत्र जीवन लाल बंसल, मैसर्स दुर्गा शुगर कंपनी (स्वामित्व फर्म), पता: एनफील्ड लेन, विकासनगर, शिव मंदिर के पास, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून-248198, 2. श्रीमती मनीपा बंसल पत्नी श्री आलोक बंसल पता: एनफील्ड	जिसका खसरा सं0 2901 मि. क्षेत्रफल 2280 वर्ग फुट या 0.0211 हेक्ट्रे विकासनगर, परगना पछवादून जिला देहरादून में स्थित है। सम्पिल की स्वा सीमाएँ: पूर्व- अन्य की भूमि, 38 फीट चौड़ी साइड, पश्चिम-24 फीट चौड़ा 60 फीट चौड़ा साइड, दक्षिण-श्री आलोक बंसल की भूमि, 60 फीट चौड़ 1002 (1399 से 1404 फासली) जिसका खसरा नं. 2901 मिन, क्षेत्रफल 3 मीटर, गांव एटन बाग तहसील विकासनगर, परगना पछवादून जिला देहरादू पुत्र श्री जीवन लाल बंसल। सीमाएँ: पूर्व- अन्य की भूमि, 53 फीट चौड़	मेनी श्रीमती मनीषा वंसल पत्नी रास्ता, 38 फीट चौड़ा साइड, उ ो साइड, संपत्ति 3 . वर्धक भूमि 180 वर्ग फुट या 0.0295 हेक्टेर न में स्थित है। सम्पत्ति की स्वामी	श्री आलोक वंसल। ज़्तर-अन्य की भूमि, खाता खतीनी सं0 गर या 295.53 वर्ग श्री आलोक वंसल

दिनांक-15.11.2021 स्थान-देहरादून

प्राधिकत अधिकारी

हिन्दुस्तान एधेसिव्स लिमिटेड CIN: L74899DL1988PL031191, बी-2/8 सफदरजंग एन्क्लेव, दिल्ली-110029

चौडी साइड. उत्तर- विक्रेता की शेष भूमि, 60 फीट चौडा साइड, दक्षिण-अन्य की भूमि, 60 फीट चौड़ी साइड।

मैसर्स दुर्गा शुगर कंपनी के परिसर में या ट्रॉजिट में पड़े हुए संपूर्ण बुक ऋण, चालू दावे और स्टॉक का दृष्टिबंधक।

टेली: 41650347, फैक्स नं. 011-26191358 ईमेल आईडी : info@bagla-group.com, वेबसाइट: www.bagla-group.com 30 सितम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही के लिये अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

क्रम	P 37		समाप्त तिमाही	LI.	समाप्त	समाप्त वर्ष	
सं.	विवरण	30.09.2021 अनंकेक्षित	30.06.2021 अनंकेक्षित	30.09.2020 अनंकेक्षित	30.09.2021 अनंकेक्षित	30.09.2020 अनंकेक्षित	31.03.221 अंकेक्षित
1.	परिचालनों से कुल आय	10537	8502	4450	19039	8969	22033
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	295	404	363	699	631	1367
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	295	404	363	699	631	1367
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	194	297	172	491	440	875
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	194	297	172	491	440	875
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	512	512	512	512	512	512
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)	-	-	-	-	-	3817
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरु द्ध प्रचालनों के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं)	-	-	7 - 7		× = -	_
	क) मूल :	3.79	5.80	3.36	9.59	8.59	17.09
	ख) तरल :	3.79	5.80	3.36	9.59	8.59	17.09

. उपरोक्त अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई, को 14.11.2021 को आयोजित उनकी बैठक में कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख में लिये गये तथा कम्पनी के सांविधिक ऑडिटर ने उस पर अपनी सीमित समीक्षा रिपोर्ट जारी की है।

. उपरोक्त विवरण सेबी (सुचीयन दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत मेट्रापॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट, स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट अर्थात् बाम्बे स्टॉक एक्सेचैंज लिमिटेड www.bseindia.com कलकत्ता स्टॉक एक्सचैंज www.cse-india.com तथा कम्पनी की वेबसाईट www.bagla

> बोर्ड के लिये तथा उसकी ओर से हिन्दस्तान एधेसिव्स लिमिटेड हस्ता/-

(अमित कुमार) एम.एस. बगला स्थानः दिल्ली निदेशक प्रबंध निदेशक तिथि: 14.11.2021 DIN:06902856 DIN:01425646

सुदेव इंडस्ट्रीज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः बी१/२६, सेक्टर-१८, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.-२०१३०१

सीआईएन : L25201UP1992PLC018150, दूरभाष स. : 8447772518, वेबसाइट : www.sudev.co.in, ई-मेल: info@sudev.co.in

30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्ध-वर्ष हेत् अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का निष्कर्ष

विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त वित्तीय वर्ष	समाप्त वित्तीय वर्ष
	30.09.2021	30.09.2020	30.06.2021	31.03.2021
'	अलेखापरीवित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीकित
प्रचालनों से कुल आय (निवल)	100	*		
े कर उपरान्त साधारण गतिविधियों से निवल लाभ/(हानि)	(0.520)	(0.340)	(0.430)	(2.287)
कर उपरान्त निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक मदों के उपरान्त)	(0.520)	(0.340)	(0.430)	(2.287)
अल्पसंख्यक ब्याज (एसोसिएट्स के लाभ/(हानि) का अंश)*			22-0.00	0.000
कर एवं अल्पसंख्यक ब्याज के उपरान्त निवल लाभ/(हानि)	(0.520)	(0.340)	(0.430)	(2.287)
अन्य व्यापक आय	4	*	10000000	
अवधि हेतु कुल व्यापक आय	(0.520)	(0.340)	(0.430)	(2.287)
समता अंश पूंजी	350.074	350.074	350.074	350.074
आरक्षितियां (पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन-पत्र में निदर्शितानुसार	Washington.	4282250000	CONTRACTOR .	10000000000000000000000000000000000000
पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर)			340	(366.937)
ाठ आय प्रति अंश (रु. 10/- प्रत्येक का)	1911	507	1724	4
1. मूल :			(41)	
2. तनुकृत :	(0.012)	(0.008)	(0.010)	(0.050)

टिप्पणीः उपरोक्त जो है वो सेबी (सूचीकरण दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली २०१५ के विनियम ३३ के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास दर्ज 30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्ध-वर्ष के वित्तीय परिणामों के विस्तत प्रारूप का एक निष्कर्ष है। 30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्ध-वर्ष के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् (www.bseindia.com) एवं कंपनी की वेबसाइट (www.sudev.co.in) पर उपलब्ध है।

स्थान : उत्तर प्रदेश

15 Minority Interest*

or Loss

Other Comprehensive Income

reclassified to profit or Loss

reclassified to profit or Loss

(c) Prior Period

(b) Diluted

(a)Basic (b) Diluted

16 Net profit/ (Loss) afer taxes, Minority interest and

share of profit/(Loss) of associates (13+14+15)*

1 (a) Items that will not be reclassified to profit

(b) Income Tax relating to items that will not be

Total Comprehensive Income for the period

18 Paid-up equity share capital (Face value of Rs

19 Reserve excluding Revaluation Reserve as per

balance sheet of previous accounting year

face value Rs 10/- each) not annualised

20 Earnings per share(before extraordinary items) (of face value Rs 10/- each) not annualised

Earnings per share (after extraordinary items)(of

2 (a) Items that will be reclassifies to profit or loss (b) Income Tax relating to items that will be

कृते सुदेव इंडस्ट्रीज लिमिटेड

बोर्ड के आदेश द्वारा

3.00

16.79

4.27

0.46

8.73

13.46

3.33

3.33

3.33

3.33

0.76

2.57

2.57

2.57

4.04

6.61

286.47

45.27

0.09

0.09

0.09

0.09

दिनांक : 14.11.2021

हस्ता./-राजीव अग्रवाल निदेशक (डीआईएन : 00929463)

CAPFIN INDIA CIN: L74999DL1992PLC048032 Registered Office: PP-1, Gali No.10, Industrial Area, Anand Parnat, New Delhi-110005 STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30th September 2021 (Rs. in Lacs) Corresponding | Year to date **Previous** 3 months 3 months figures for **Particulars** ended ended in the **Ended** ended previous year | year ended 30-09-2021 30-06-2021 30-09-2020 31-03-2021 31-03-2020 (Refer Note Below) Unaudited Unaudited Refer Note-5 Audited Audited Income from operations a)Net sales /Income from Operations (Net of Excise 44.30 13.79

1.24 0.10 1.16 b) Other operating income 45.54 Total income from operations (net) 15.00 (a) Cost of materials consumed 50.97 (b) Purchase of stock in trade c) Changes in inventories of finished goods, work (11.74)-In-progress and stock-in-trade 1.05 1.01 1.27 3.82 (d) Employee benefits expense (e) Depreciation and Amortisation expense 0.45 0.87 (f) Other expenses 3.83 41.15 10.64 Total expenses 4.84 5.32 Profit/(Loss) from operations before other (1.76)(1.85)ncome, finance costs and exceptional items (1-2 4 other income 5 Profit/(Loss) from ordinary activities before 4.39 (1.76)(1.85)4.36 inance costs and exceptional items (3+/-4)

Profit/(Loss) form ordinary activities after finance (1.76) (1.85)4.36 costs but before exceptional items (5+/-6) 9 Profit/ (Loss) form ordinary activities before 4.39 (1.76)(1.85)4.36 tax (7+/-8) 10 Tax expense including Defferd Tax 0.49 Net Profit/(Loss) from ordinary activities after 4.39 (1.76)(1.85)3.87 tax (9+/-10) 12 Extraordinary items (net of tax expense) 3.87 Net Profit/(Loss) for the period (11+/-12) 4.39 (1.76)(1.85) 14 Share of Profit/(Loss) of associates*

4.39

286.47

14.40

0.15

0.15

0.15

0.15

The above financial results have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting

These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standard ("IND-AS) notified under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules there under and in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations

The format for quarterly results as prescribed in SEBI's circular CIR.CFD/CMD/15-2015, dated 30th November, 2015, has been

The above results pertains to the Finanical Segment which is the only business segment of the Company is terms of IND

AS 108 on "Operating Segment". The spread of COVID-19 has severly impacted businesses around the globe. In many

countries including India, there has been severe disruption to regular business operations due to lockdown, disruption

in transportation, quarantines, social distacning and many other norms. The COVID-19 pandemic is rapidly spreading

throughout the world. Company office was in lockdown since April 20, 2021. Effective in the middle of the June 2021, as pel

directives of MHA, wherein some relaxations were announced, the Company made operation its office with 33% capacity

taking all the precautions and following all the standard norms. The Company has evaluated its liquidity position and of

recoverability and carrying value of its assets and has conducted no material adjustment are requited at this stage in financial

Expenses are recognised in Statement of Profit & Loss using a classification based on the nature of expense method as per

staements. There is uncertaininty with regard to its impact which cannot be reasonably determined at this stage.

(1.76)

286.47

(0.06)

(0.06)

(0.06)

(0.06)

(1.85)

286.47

(0.06)

(0.06)

(0.06)

(0.06)

3.87

(34.74)

(30.87)

286.47

14.40

0.14

0.14

0.14

0.14

The above is an extract of the detailed format of Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity. www.bseindia.com

There is no exceptional or extra-ordinary items during the reporting period.

Fruition Venture Limited Sanhit Jain

Director

Rachita Mantry

सार्वजनिक सूचना

श्राम जनता को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि, हमारे क्लाइंट मैसर्स मुथूट फाईनान्स लि. द्वारा 16th November 2021 को (बंधक आमुषणों की-एनपीए खातों) आयोजित होने वाली सार्वजनिक नीलामी कुछ अपरिहार्य कारणों से स्थिगित कर दी गई है और अब 9th December 2021 को सार्वजनिक नीलामी पुनः निर्धारित की गई है। सार्वजनिक नीलामी का स्थान एवं समय वही रहेगा जो कि पहले ही संबंधित कर्जदारों को अधिसुचित किया जा चुका है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, इच्छुक व्यक्ति हमारे क्लाइंट की संबंधित शाखा में सम्पर्क कर सकते हैं।

> कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर-॥, नई दिल्ली - 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भूगतान करके अपने गिरवी रखे गहनों को छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

अनुसूची । प्ररूप ए

सार्वजनिक घोषणा (भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विविश्वमून २०१७ के विविश्वमू १४ के अधीत।

₹		7 क विनयम 14 के अधान) इवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ
1.	कार्पोरेट व्यक्ति का नाम	सैंट्रल ग्लास कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट व्यक्ति के निगमन की तिथि	26 अक्टूबर 2012
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट व्यक्ति निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली और हरियाणा
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या / सीमित देयता पहचान कॉर्पोरेट लोगों की संख्या	U26100HR2012FTC047499
5.	कार्पोरेट व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो तो) का पता	प्लॉट नंबर 278, चौथी मंजिल, उद्योग विहार फेज—॥, गुरुग्राम, हरियाणा — 122015
6.	कार्पोरेट व्यक्ति का परिसमापन प्रारंभ होने की तिथि	12 नवंबर 2021
7.	परिसमापक का नाम, पता, ई—मेल पता, दूरभाश संख्या तथा पंजीकरण संख्या	नाम: अखिल चड्डा पता: 89, पुष्पांजलि अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 10, सैक्टर —4, द्वारका, नई दिल्ली — 110078 ईमेल आईडी: chadhakhil@gmail.com पंजी. सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00917/2020-21/1306

12 दिसंबर 2021 एतद्वारा सुचना दी जाती है कि **सैंट्रल ग्लास कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** ने 12 नवंबर 2021 को स्वैच्छिक

दावे जमा करने की अन्तिम तिथि

परिसमापन आरम्भ किया है । सैंट्रल ग्लास कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डितधारकों को एतद्वारा मद 7 के सम्मुख उल्लिखित पते पर परिसमापक के पास 12 दिसंबर 2021 को या इससे पूर्व अपने दावों के प्रमाण जमा करने के लिए कहा जाता है। वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ही अपने दावों के प्रमाण जमा करेंगे । अन्य सभी पक्षकार अपने दावों के प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा जमा कर सकते हैं ।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी। अखिल चट्टा तिथि : 18 नवंबर 2021 परिसमापक, सेंट्रल ग्लास कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड स्थान: नई दिल्ली पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00917/2020-21/13068

APEX CAPITAL AND FINANCE LIMITED (Formerly Apex Home Finance Limited)

CIN: L65910DL1985PLC021241 **Regd. Office:** L-3, Green Park Extension, New Delhi – 110016 Email: contact@apexfinancials.in; Website: www.apexfinancials.in

Tele-Fax: +91 11 40348775

EXTRACTS OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED ON SEPTEMBER 30, 2021 (Rs. in Lacs) Half Year Quarter Ended Ended Ended 30/09/2021 30/09/2021 | 30/09/2020 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) 258.79 Total Income from operations 129.20 Net Profit/(Loss) for the period (before 9.64 25.10

121.34 21.37 Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 21.37 Net Profit/(Loss) for the period before tax 9.64 25.10 (after Exceptional and/or Extraordinary 7.32 Net Profit/(Loss) for the period after tax 18.26 15.81 (after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the 7.32 18.26 15.81 period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Paid-up Equity Share Capital 592.00 592.00 591.99 (Face Value of Rs. 10/- each) Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinuing operations) Basic (Rs.) 0.12 0.31 0.27 Diluted (Rs.) 0.12 0.31 0.27

Notes:

. The above unaudited financial results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2021 have been reviewed and recommended by the Audit Committee in its meeting held on 14.11.2021 and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors in its meeting held on 14.11.2021. The Statutory Auditors of the Company have carried out a Limited Review of the aforesaid financial

. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with BSE Limited under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited financial results for the guarter and half year ended September 30, 2021 are available on the Stock Exchange Website at www.bseindia.com and on the Company's Website at www.apexfinancials.in.

By the Order of the Board For Apex Capital and Finance Limited

(Shekhar Singh)

DIN: 00039567

Managing Director

Date: 14.11.2021 Place: New Delhi

हिन्दुस्तान एवरेस्ट टूल्स लि. पंजी. एवं मुख्य कार्यालय : 4/11, प्रथम तल, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 (भारत) CIN:L74899DL1962PLC003634, फोन: +91-9910032394

ई-मेल : admin@everesttools.com, वेबसाईट : http://www.everesttools.com 30 सितम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिए अनंकेक्षित स्टैण्डएलॉन वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार

(रु. लाखों में, प्रति शेयर डैटा को छोड़कर)

	समाप्त	समाप्त वर्ष	
विवरण			
विवरण	30-09-2021 (अलेखापरीक्षित)	30-09-2020 (अलेखापरीक्षित)	31-03-2021 (लेखापरीक्षित)
परिचालनों से कुल आय (निवल)	255.95	23.65	554.16
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)(कर, विशिष्ट एवं /अथवा असाधारण मदों से पूर्व#)	29.36	-21.47	296.69
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद#)	29.36	-21.47	441.79
कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद#)	36.16	-17.89	374.44
असतत परिचालनों से कर से बाद अवधि के लिये अवरुद्ध प्रचालनों से शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद#)	27.51	-	-1.46
अवधि के लिये कुल व्यापक आय (अवधि के लिये (कर से बाद) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर से बाद से शामिल)	524.85	-17.89	372.98
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रति)	160.72	160.72	160.72
अन्य इक्विटी			1850.72
सतत प्रचालनों से आय/(हानि) प्रति शेयर (वार्षिकीकृत नहीं)			
क) मूल (रु.)	2.25	-1.11	23.30
ख) तरल (रु.)	2.25	-1.11	23.30
अवरुद्ध प्रचालनों से आय/(हानि) प्रति शेयर (वार्षिकीकृत नहीं)			
क) मूल (रु.)	1.71	- 20	(0.09)
ख) तरल (रु.)	1.71	_ 72	(0.09)
जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों से आय/(हानि)	7	17	

ख) तरल (रु.)

क) मूल (रु.)

प्रति शेयर (वार्षिकीकृत नहीं)

. 30 सितम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिये ''अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों'' के उपरोक्त विवरण (''विवरण'') की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 14 नवम्बर, 2021 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये। सांविधिक लेखापरीक्षकों

3.96

ने इस विवरण पर असंशोधित विचार जारी किए हैं। . इन वित्तीय परिणामों को उसके अंतर्गत निर्मित संबंधित नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक के पहचान तथा मापन के सिद्धातों के अनुसार तैयार किया गया है।

उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल तिमाही तथा छमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही तथा छमाही स्टैण्डएलोन वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप एक्सचैंज की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट www.everesttools.com पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के लिये तथा उसकी ओर से

-1.11

23.21

हिन्दुस्तान एवरेस्ट टूल्स लि.

देवांश गुप्ता

2021 को समाप्त तिमाही और छमाही सीआईएन न.-

L45100DL1973PLC006795 पढा जाए अस्विधा के लिए खेद है।

फर्मो/सप्लायरों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

आपूर्ति की निविदा की सूचना बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

विवखंव बुढाना (मुवनगर)

विठखंठ बुढाना (मुठनगर)

जएमजी कॉपोरेशन लिमिटेड

जिला देहरादुन 248198

पंजी. कार्यालय: 574, 2रा तल, मैन रोड, चिराग दिल्ली, नई दिल्ली-110017 वेबसाईटः www.jmg-corp.in, ई-मेलः info@jmg-corp.in CIN: L31104DL1989PLC362504, Tel.: 011-41834411, 41834111

30 सितम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिये अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का सार

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.9.2021 (अनंकेक्षित)	समाप्त छमाही 30.9.2021 (अनंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 30.9.2020 (अनंकेक्षित)	समाप्त वर्ष 31.3.2021 (अंकेक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय (नीचे टिप्पणी 2 देखें)	96.43	190.41	137.75	602.71
2	कर से पूर्व शुद्ध लाभ/ (हानि)	(29.73)	(28.96)	(23.00)	(127.69)
3	कर से बाद शुद्ध लाभ/ (हानि)	(29.73)	(28.96)	(23.00)	(127.69)
4	कुल व्यापक आय	(29.73)	(28.96)	(23.00)	(129.69)
5	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी (सम मूल्य 2.5/- प्रति)	578.95	578.95	495.00	578.95
6	आय प्रति शेयर (रु. 2.5/- प्रति का) (वार्षिकीकृत नहीं)				5.31.00.330
332	क. मूल ईपीएस (रु.)	(0.128)	(0.125)	(0.116)	(0.560)
	ख. तरल ईपीएस (रु.)	(0.128)	(0.125)	(0.116)	(0.560)

स्थानः नर्ड दिल्ली

तिथि: 15 नवम्बर, 2021

. उपर्युक्त सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप कम्पनी की वेबसाईट www.jmg-corp.in तथा की स्टॉक

एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com पर उपलब्ध है। 2. प्रचालनों से कुल आय केवल प्रचालनों से राजस्व का प्रतिनिधित्व करता है।

अतुल कुमार मिश्रा (प्रबन्ध निदेशक) डीआईएन: 00297681

निदेशक मंडल के लिये तथा उनकी ओर से

(Amount in Rupees)

RISHAB SPECIAL YARNS LIMITED CIN: L1711RJ1987PLC004067

Regd. Office: 2070, Rasta Bara Gangore, Jaipur-302003 Email: rsyltd@gmail.com Phone & Fax No.: 0141-2575213, CIN: L1711RJ1987PLC004067

Visit us at : www.rishabspecial.com EXTRACT OF STANDALONE RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30.09.2021

SI.	Particulars	For the quarter ended 30.09.2021	For the quarter ended 30.06.2021	For the quarter ended 30.09.2020	For the Six Months ended 30.09.2020	For the Six Months ended 30.09.2021	For the Year Eneded 31.03.2021
No.	0.0000000000000000000000000000000000000	Un-Audited/ Reviewed	Un-Audited/ Reviewed	Un-Audited/ Reviewed	Un-Audited/ Reviewed	Audited	Audited
1.	Total Income	0,000	0.000	0.000	0.000	0.005	0.005
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Ex- traordinary items#) s	(2.457)	(5.987)	(1.816)	(8.443)	(11.813)	(11.813)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	72.147	(5.987)	(1.816)	66.161	61.929	61.929
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (af- ter Exceptional and/or Extraordinary items#)	72.147	(5.987)	(1.816)	66.161	47.497	47.497
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	72.147	(5,987)	(1.816)	66,161	47.497	47.497
6.	No. of Equity Share Capital	3560700	3560700	3560700	3560700	3560700	3560700
7,	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	(342.64)	(342.64)	(394.70)	(342.64)	(342.64)	(342.64)
8.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each (for continuing and discontinued operations) of Rs. 10/-						

(0.168)(0.051)1.334 1. - Basic 2.026 (0.179)1.858 2. - Diluted 2.026 (0.168)(0.051)1.334 Note: a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Bombay Stock Exchange(s) http://www.bseindia.com/corporates/

- Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable For RISHAB SPECIAL YARNS LIMITED Date: 15.11.2021 Amitabh Hirawat, Managing Director Place: Jaipur DIN: 00349697

FRUITION VENTURE LIMITED

Comp_Resultsnew.aspx?expandable=3 and the company www.rishabspecial.com.

CIN-L74899DL1994PLC058824 Regd. Off:- 21-A, III Floor Mukherjee Nagar, Commercial Complex, Delhi-110009 Tel No. +91-11-27468600, Web: www.fvl.co.in, Email: csfruitionventure@gmail.com

STATEMENT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30.09.2021 (Rs. In Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended 30.09.2021 (Un- Audited)	Quarter ended 30.06.2021 (Un- Audited)	Quarter ended 30.09.2020 (Un- Audited)	Half Year Ended 30.09.2021 (Un- Audited)	Half Year Ended 30.09.2020 (Un- Audited)	Year ended 31.03.2021 (Audited)	Year ended 31.03.2020 (Audited)
1	Total income from operations	15.39	12.94	0.82	28.34	2.99	26.97	184.47
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	1.11	54.42	-2.85	55.53	10.66	54.48	-164.02
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	1.11	54.42	-2.85	55.53	10.66	54.48	-164.02
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	-3.06	41.30	-2.52	38.24	3.82	33.78	-134.78
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income(after tax)]	-13.45	56.50	-5.57	43.04	8.87	38.16	-226.39
6	Equity Share Capital	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	185.76	188.82	-3.05	185.76	93.74	147.52	113.74
8	Earning per share (of Rs. 10 each) (for continuing and discontinued operations)- (a) Basic : (b) Diluted:	-0.08 -0.08	1.03	-0.06 -0.06	0.96 0.96	0.10 0.10	0.84 0.84	-3.37 -3.37

By order of the Board

DIN: 05338933

Place : Delhi

Date: 14.11.2021

para 99 of IND AS-1, presentation of financial staements

held on 14th November, 2021 and Statutory Auditors have carried out limited review.

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI circulars dated 5th July, 2016.

modified to comply with requirements of SEBI's circulars dated 5th July, 2016.

Previuos year's figures have been regrouped wherever necessary to confirm to current period classification For Capfin India Limited (Whole Time Director

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 16 नवम्बर, 2021

DIN: 06920376

www.readwhere.com

Place: New Delhi

Date: 15.11.2021